

जिल्हा परिषद सेवेतील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या
कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना
लागू करण्याबाबत --

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
शासन निर्णय क्र. डिएसआर २००९/प्र.क्र.६१/आस्था-०५
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक: २० मे, २००९

- संदर्भ : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वेपूर १२०९/प्र.क्र.२०/सेवा-९, दिनांक २७.२.२००९
२) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्र. वेपूर १२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, दिनांक २२.४.२००९
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. वेपूर १२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दिनांक २९.४.२००९

शासन निर्णय :

राज्य वेतन सुधारणा समिती, २००८ च्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारासह स्विकृत करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ संदर्भ क्र.२ अन्वये अधिसूचित केले आहे. तसेच या नियमानुसार प्रारंभिक वेतन निश्चितीबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती संदर्भ क्र.३ मधील परिपत्रकान्वये विहित करण्यात आलेली आहे. या आधारे जिल्हा परिषदांमधील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम २४८ च्या परंतुकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारांनुसार तसेच उपलब्ध अन्य अधिकारांचा वापर करून शासन असे आदेश देत आहे की, संदर्भ क्रमांक २ अन्वये अधिसूचित केलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील वेतन निश्चितीचे नियम व संदर्भ क्र.३ अन्वये वेतन निश्चितीसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील सूचना सोबतच्या जोडपत्रातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात याव्यात.

३. सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चिती करण्यासाठी आवश्यक तो विकल्प हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहील.


४. राज्य वेतन सुधारणा समिती, २००८ च्या संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये स्विकृत केलेल्या शिफारशीनुसार (शिफारस क्र.३.१३) सोबतच्या सहपत्रातील अ.क्र. ६६ येथे नमूद केलेल्या विविध पदनामांच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना त्यांची विद्यमान वेतनश्रेणी रु. ६५००-१०५०० गृहित धरून मंजूर करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांची विद्यमान वेतनश्रेणी रु.६५००-१०५०० विचारात

घेऊन दिनांक १ जानेवारी, १९९६ रोजी वेतन निश्चिती करण्यात यावी व या आधारे दिनांक १ जानेवारी २००६ रोजीचे विद्यमान वेतनश्रेणीतील वेतन, सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चिती करण्यासाठी गृहित धरण्यात यावे.

५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२००/२००९/सेवा-९, दिनांक १९.५.२००९ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आला आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २००९०५२११२२९५८००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,



(र.ना.अंबरित)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति:

मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव
 मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव
 विभागीय आयुक्त (सर्व)
 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष (सर्व)
 जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व)
 महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई (५ प्रतींसह)
 महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर (५ प्रतींसह)
 मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई
 उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/नाशिक/
 अमरावती
 वित्त विभाग/सेवा-९
 निवड नस्ती आस्था-५

(शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.डिएसआर २००९/प्र.क्र.६१/आस्था-०५,
दिनांक २० मे, २००९ चे सहपत्र)

जोडपत्र

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून लागू करावयाच्या सुधारित वेतन संरचनेचा तपशील

(रक्कम रुपयांत)

अ.क्र.	पदनाम/Designation	विद्यमान वेतनश्रेणी व असल्यास विशेष वेतन Existing scale of pay and special pay, if any.	सुधारित वेतन संरचना Revised scale of pay and Special pay, if any	
			वेतन बँड	ग्रेड वेतन
१	२	३	४	५
जिल्हा विकास सेवा/District Development Service				
अराजपत्रित				
जिल्हा तांत्रिक सेवा (गट-क)--कृषि / District Technical Services (Group C)- Agriculture				
१	कृषि अधिकारी/ Agriculture Officer	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००
२	पशुवैद्यकीय अधिकारी / Veterinary Officer	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
३	विस्तार अधिकारी (पशुसंवर्धन)/ Extension Officer (Animal Husbandry)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
४	विस्तार अधिकारी (कृषि)/ Extension Officer(Agriculture)	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
५	सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी/ Assistant Live Stock Development Officer	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
६	पशुधन पर्यवेक्षक / Livestock Supervisor	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
७	पशुवैद्यकीय मिश्रक / Veterinary Compounder	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
जिल्हा विकास सेवा (गट-क) शिक्षण, श्रेणी-२ / District Development Services (Group C) - Education Grade-II				
८	उच्च माध्यमिकचे वर्ग जोडलेल्या माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक/ Head Master/Head Mistress in Secondary Schools	(i)७५००-१२००० + वि.वे.रु.२०० (ii)९१२५-१४०७५ + वि.वे.रु.२०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii)१५६००-३९१०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)	४९०० ५८००
९	मुख्याध्यापक/ मुख्याध्यापिका, माध्यमिक शाळा/अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य / Head Master/ Head Mistress, Secondary Schools/Head Master, B.Ed College	(i)७५००-१२००० (ii)९१२५-१४०७५ (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii)१५६००-३९१०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)	४८०० ५७००
१०	पूर्ण अर्हताधारक शिक्षक (उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय)/ Qualified teachers (Higher Secondary/Junior College)	(i)७२२५-११०५० (ii)८०००-१३५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii)९१२५-१४०७५ (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i)९३००-३४८०० (ii)१५६००-३९१०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii)१५६००-३९१०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	४६०० ५४०० ५७००

१	२	३	४	५
११	उप मुख्याध्यापक माध्यमिक शाळा/ Deputy Head Master, Secondary Schools	(i) ७२२५-११०५० (ii) ८०००-१३५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) १५६००-३९१०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)	४६०० ५४००
१२	अपूर्ण अर्हताधारक शिक्षक (उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय)/ Unqualified teachers (Higher Secondary/Junior College)	(i) ५५००-९००० + वि.वे.रु.२५० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	४३०० ४४०० ४८००
१३	मुख्याध्यापक/ मुख्याध्यापिका, भारतीय इंग्रजी माध्यमिक शाळा/ Head Master/ Head Mistress, in Indian Middle Schools	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
१४	केंद्रप्रमुख/ Centre Head Master	(i) ५५००-९००० + वि.वे.रु.२५० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४४०० ४५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४९०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
१५	पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक/ Graduate Primary Head Master	(i) ५५००-९००० + वि.वे.रु.२५० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४४०० ४५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४९०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
१६	मुख्याध्यापक (पूर्व माध्यमिक शाळा)/ Head Master/Pre Primary School	(i) ५५००-९००० + वि.वे.रु.२५० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४४०० ४५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४९०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
१७	पदवीधर मुख्याध्यापक, मध्यवर्ती प्राथमिक शाळा / Graduate Head Master, Central Primary School	(i) ५५००-९००० + वि.वे.रु.२५० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४४०० ४५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४९०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
१८	वरिष्ठ मुख्याध्यापक (प्राथमिक शाळा)/ Senior Head Master (Primary School)	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)

१	२	३	४	५
१९	माध्यमिक शिक्षक/ Secondary teacher	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२०	शिक्षक (विद्या निकेतन) पदवीधर बी.एड./ Teacher (Vidya Niketan), Graduate, B.Ed	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२१	प्राथमिक शिक्षक (पदवीधर)/ Primary Teacher (Graduate)	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२२	शास्त्री (पदवीधर) एस.टी.सी.पात्रताधारक/ Shastri (Graduate) with S.T.C	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२३	हिंदी शिक्षक, माध्यमिक शाळा/ Hindi teacher in Secondary School.	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२४	सहाय्यक शिक्षक, माध्यमिक शाळा/ Assistant teacher in Secondary School.	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२५	चित्रकला शिक्षक/ Drawing Master	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२६	चित्रकला मास्टर शिक्षक / Drawing Master Teacher	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)

१	२	३	४	५
२७	विशेष चित्रकला मास्टर/ Special Drawing Master	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२८	शारीरिक शिक्षण निदेशक/ Physical Training Instructor	(i) ५५००-९००० (ii) ६५००-१०५०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ७५००-१२००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ९३००-३४८०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	४३०० ४४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
२९	अधिव्याख्याता, उच्च माध्यमिक शाळा/ Lecturer, Higher Secondary School	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००
३०	विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी-२/ Extension Officer (Education), Grade.II	६०००-१००००	९३००-३४८००	४४००
३१	विस्तार अधिकारी शिक्षण श्रेणी-३/ Extension Officer (Education), Grade.III	५५००-९००० + वि.वे.रु.३००	९३००-३४८००	४३००
३२	प्राचार्य (विद्यानिकेतन) / Principal (Vidya Niketan)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
३३	शिक्षक, उच्च माध्यमिक शाळा गट/ Teacher in Higher Secondary School Units.	५०००-८००० + वि.वे.रु.२५०	९३००-३४८००	४२००
३४	अधिव्याख्याता/ Lecturer	५०००-८००० + वि.वे.रु.२५०	९३००-३४८००	४२००
३५	वरिष्ठ सहाय्यक उप शिक्षण निरीक्षक/ Senior Assistant Deputy Education Inspector	५०००-८००० + वि.वे.रु.२५०	९३००-३४८००	४२००
३६	संगीत शिक्षक/ Music Teacher	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
३७	अवार्डी शिक्षक/ Awardee Teacher	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)

१	२	३	४	५
३८	माध्यमिक शिक्षक/ Secondary teacher	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
३९	सहाय्यक शिक्षक (पूर्व माध्यमिक शाळेतील)/ Assistant Teacher (Middle School)	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
४०	कृषि शिक्षक/ Agriculture teacher	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
४१	शास्त्री, एस.टी.सी. पात्रताधारक/ Shastri, with S.T.C.	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
४२	हिंदी शिक्षक/ Hindi Teacher	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
४३	संगीत शिक्षक/ Music Teacher	(i) ४०००-६००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२४०० ४२०० ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
४४	प्राथमिक शिक्षक/ Primary Teacher	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
४५	कलाकुसर शिक्षक/ Craft Teacher	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)

१	२	३	४	५
४६	चित्रकला शिक्षक/ Drawing teacher	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
४७	शारीरिक निदेशक/ Physical instructor	(i) ४५००-७००० (ii) ५०००-८००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ५५००-९००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ९३००-३४८०० (iii) ९३००-३४८००	२८०० ४२०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ४३०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
४८	हिंदी शिक्षक, माध्यमिक शाळा/ Hindi Teacher, Secondary school	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
४९	माध्यमिक शिक्षक/ Secondary teacher	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
५०	लघुलेखन/टंकलेखन निदेशक/ Shorthand/Typing Instructor	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
५१	वाणिज्य शिक्षक/ Commerce Teacher	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
५२	शास्त्री (पदवीधर) एस.टी.सी. पात्रता नसणारे / Shastri (Graduate) without S.T.C	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
५३	शिल्पकला शिक्षक / Sculpture Teacher	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
५४	प्रक्षेत्र सहाय्यक / Field Assistant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
५५	पूर्व प्राथमिक शिक्षक / Pre Primary Teacher	(i) ३२००-४९०० (ii) ४०००-६००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ५२००-२०२००	२००० २४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी)
५६	प्राथमिक शिक्षक / Primary Teacher	(i) ३२००-४९०० (ii) ४०००-६००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ४५००-७००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ५२००-२०२०० (iii) ५२००-२०२००	२००० २४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) २८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)
५७	कलाकुसर शिक्षक / Craft Teacher	(i) ३२००-४९०० (ii) ४०००-६००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ४५००-७००० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ५२००-२०२०० (iii) ५२००-२०२००	२००० २४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) २८०० (२०% पदांकरिता निवडश्रेणी)

१	२	३	४	५
५८	शास्त्री एस.टी.सी. पात्रता नसणारे / Shastri without S.T.C	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
५९	हिंदी शिक्षक / Hindi Teacher	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
६०	अपदवीधर हिंदी शिक्षक / Non-Graduate Hindi Teacher	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
६१	मॅट्रिक नसलेले शारीरिक निदेशक / Non-Matric Physical Instructor	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
६२	प्रयोगशाळा सहाय्यक/ Laboratory Assistant	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
६३	कलाकुसर शिक्षक / Craft Teacher	(i) ३०५०-४५९० (ii) ४०००-६००० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) (iii) ४५००-७००० (२०% पदांकरिता नियुक्तश्रेणी)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ५२००-२०२०० (iii) ५२००-२०२००	१९०० २४०० (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) २८०० (२०% पदांकरिता नियुक्तश्रेणी)
६४	प्राथमिक शिक्षक (७ वी पास) प्रशिक्षित / Primary Teacher (7 th passed) Trained	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
६५	कनिष्ठ शिक्षण सहाय्यक/प्रयोगशाळा परिचर, माध्यमिक शाळा / Junior Education Assistant / Laboratory Attendant in Scndary Schools.	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
६६	संगीत शिक्षक तबला / Music Teacher (Tabla)	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
६७	हिंदी शिक्षक/कलाकुसर शिक्षक/ Hindi Teacher / Craft Teacher	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
(जिल्हा तांत्रिक सेवा (गट-क)आरोग्य)/District Technical Services (Group-C) Health				
६८	अवैद्यकीय पर्यवेक्षक/ Non-Medical Supervisor	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००

१	२	३	४	५
६९	वैद्यकीय अधिकारी (साथरोग)/ Medical Officer (Epidemic) वैद्यकीय अधिकारी (फिरता दवाखाना)/ Medical Officer (Mobile Hospital) वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी/ Senior Medical Officer विस्तार अधिकारी (आरोग्य)/ Extension Officer (Health) कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी/ Junior Medical Officer कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी श्रेणी-३/ Junior Medical Officer, Grade.III, आयुर्वेदिक वैद्य/ Ayurvedic Vaidya वरिष्ठ आयुर्वेदिक वैद्य/ Senior Ayurvedica Vaidya यूनानी हकीम/ Unani Hakim	(i) ८०००-१३५०० (महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसायी अधिनियम, १९६१ च्या अनुसूचीतील ए आणि ए-१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शैक्षणिक अर्हताधारकांसाठी) (ii) ५५००-९००० (इतरांसाठी)	(i) ९३००-३४८०० (महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसायी अधिनियम, १९६१ च्या अनुसूचीतील ए आणि ए-१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शैक्षणिक अर्हताधारकांसाठी) (ii) ९३००-३४८०० (इतरांसाठी)	४४०० ४३००
७०	सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका/ Public Health Nurse	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
७१	आरोग्य पर्यवेक्षक/ Health Supervisor	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
७२	प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ Laboratory Technician	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
७३	परिचारिका प्रसविका / Nurse Midwife	५०००-८००० + वि.वे.रु.२५०	९३००-३४८००	४२००
७४	कलाकार-नि-छायाचित्रकार/ Artist-cum-Photographer	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
७५	महिला आरोग्य अभ्यागता / Lady Health Visitor	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
७६	मिश्रक / Compounder	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
७७	आरोग्य सहाय्यक / Health Assistant	४०००-६००० + वि.वे.रु.२००	५२००-२०२००	२५००
७८	"X" किरण तंत्रज्ञ / X-ray Technician	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००

१	२	३	४	५
७९	प्रक्षेपक / Projectionist	(i) ४०००-६००० (शासन आदेश दि.१०.१२.१९७० नुसार या विभागाकडे हस्तांतर होताना ज्यांचे मूळ वेतन रु.१७५/- पेक्षा कमी नव्हते अशा कर्मचाऱ्यांसाठी) (ii) ३२००-४९००	(i) ५२००-२०२०० (ii) ५२००-२०२००	२४०० (शासन आदेश दि.१०.१२.१९७० नुसार या विभागाकडे हस्तांतर होताना ज्यांचे मूळ वेतन रु.१७५/- पेक्षा कमी नव्हते अशा कर्मचाऱ्यांसाठी) २०००
८०	कुष्ठरोग तंत्रज्ञ / Leprosy Technician	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
८१	कनिष्ठ आरोग्य प्रचारक / Junior Health Visitor	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
८२	सहाय्यकारी परिचारिका प्रसविका/ Auxillary Nurse Midwife	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
८३	स्त्री क्षेत्र कार्यकर्ती / Female Field Workder	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
८४	आरोग्य कर्मचारी/आरोग्य सेवक/आरोग्य कार्यकर्ता/बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी / Health Worker/ Multipurpose Health Worker	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
८५	समन्वयक (कुटुंब नियोजन) / Co-ordinator (Family Planning)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
८६	सिनेमा चालक / Cinema Operator	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
८७	व्रणोपचारक / Dresser	२७५०-४४००	५२००-२०२००	१८००
८८	प्रशिक्षित दाई / Trained Dai	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
(विस्तार सेवा/Extension Services)				
८९	सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी/ Assistant Child Development Project Officer	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
९०	विस्तार अधिकारी (पंचायत व समाजकल्याण) / Extension Officer (Panchayat & Social Welfare)	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
९१	समाजकल्याण निरीक्षक / Social Welfare Inspector	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
९२	पर्यवेक्षिका (एबाविसे) / Supervisor (ICDS)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
९३	मुख्य सेविका / Mukhya Sevika	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००
९४	समन्वयक / Coordinator	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
९५	ग्रामसेविका / Gramsevika	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००

१	२	३	४	५
९६	वरिष्ठ समाजकल्याण सहाय्यक / Senior Social Welfare Assistant	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
९७	समाजसेवक / Social Worker	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
९८	सहाय्यक कलाकार / Assistant Artist	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
९९	समाजकल्याण सहाय्यक / Social Welfare Assistant	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
जिल्हा तांत्रिक सेवा -वर्ग(२) अभियांत्रिकी श्रेणी (२) / District Technical Services - (Class.II), Engineering (Grade.II)				
१००	शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता / Sectional Engineer/ Assistant Engineer	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००
१०१	मुख्य आरेखक / Head Draftsman	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००
१०२	कनिष्ठ अभियंता / Junior Engineer	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
१०३	विस्तार अधिकारी (ग्रामीण अभियांत्रिकी) / Extension Officer (Rural Engineering)	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
१०४	यांत्रिकी पर्यवेक्षक / Mechanical Supervisor	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
१०५	यांत्रिकी निदेशक / Mechanical Instructor	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
१०६	आरेखक / Draftsman	(i)४५००-७००० (ii)५५००-९००० (४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	५२००-२०२०० ९३००-३४८०० (४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	२८०० ४३००
१०७	वरिष्ठ यांत्रिकी / Senior Mechanic	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
१०८	बीजतंत्री / Electrician	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
१०९	कनिष्ठ आरेखक / Junior Draftsman	(i)४०००-६००० (ii)५०००-८००० (५ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	(i)५२००-२०२०० (ii)९३००-३४८०० (५ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	२४०० ४२००
११०	स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (कनिष्ठ अभियंता यांचे सहाय्यक)/ Civil Engineering Assistant (Assistant to Junior Engineer)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
१११	हातपंप यांत्रिकी /स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (कनिष्ठ अभियंता यांचे सहाय्यक) / Hand Pump Mechanic/Civil Engineering Assistant(Assistant to Junior Engineer)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००

१	२	३	४	५
११२	दगड चरकयंत्र चालक / Stone Crusher Diriver (Kasyagar Driver)	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) -- सहाय्यक अभियांत्रिकी व विस्तार / District Technical Services (Class.III)- Assistant Engineering & Extension				
११३	समयपालक / Timekeeper	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
११४	कनिष्ठ यांत्रिकी (दृक्श्राव्य) / Junior Mechanic (Audio-Visual)	(i) ४०००-६००० (शासन आदेश दि.१०.१२.१९७० नुसार या विभागाकडे हस्तांतर होताना ज्यांचे मूळ वेतन रु.१७५/- पेक्षा कमी नव्हते अशा कर्मचाऱ्यांसाठी) (ii) ३२००-४९००	(i) ५२००-२०२०० (ii) ५२००-२०२००	२४०० (शासन आदेश दि.१०.१२.१९७० नुसार या विभागाकडे हस्तांतर होताना ज्यांचे मूळ वेतन रु.१७५/- पेक्षा कमी नव्हते अशा कर्मचाऱ्यांसाठी) २०००
११५	हजेरीपट लिपीक / Muster Clerk	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
११६	अनुरेखक / Tracer	(i) ३२००-४९०० (ii) ४०००-६००० (७ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	(i) ५२००-२०२०० (ii) ५२००-२०२००	२००० २४०० (७ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)
११७	तांत्रिक सहाय्यक / Technical Assistant	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
११८	रोडरोलरचालक/ कर्षित्र चालक / Road Roller Driver / Tractor Driver	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००
११९	मेस्त्री श्रेणी-१ / Maistry, Grade-I	३०५०-४५९० + वि.वे.रु.१५०	५२००-२०२००	२०००
१२०	रस्ता कारकून / Roak Karkoon	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
१२१	मेस्त्री श्रेणी-२ / Maistry, Grade.II	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
१२२	सुतार / Carpenter	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
१२३	नळकारागीर / Plumber	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
१२४	जोडारी / Fitter	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
१२५	वाहन चालक / Driver	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
१२६	कनिष्ठ यांत्रिक / Junior Mechanic	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
१२७	तारतंत्री / Wireman	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००

१	२	३	४	५
जिल्हा सेवा (गट-ड)				
१२८	मुकादम / Mukadam	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१२९	तेलवाला / Oilman	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१३०	आगवाला / Fireman	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
जिल्हा सेवा (कार्यकारी व ग्रामविस्तार)श्रेणी-२ / District Services (Executive and Village Extension)				
१३१	विस्तार अधिकारी (पंचायत व समाज कल्याण) / Extension Officer (Panchayat & Social Welfare)	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
१३२	ग्राम विकास अधिकारी / Village Development Officer	४५००-७००० + रु.२०० विशेष वेतन	५२००-२०२००	२८००
१३३	ग्रामसेवक / Gram Sevak	(i)४०००-६००० (ii)४५००-७००० (७ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	(i)५२००-२०२०० (ii)५२००-२०२००	२४०० २८०० (७ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)
जिल्हा सेवा (लिपीकवर्गीय) श्रेणी-२ / District Services (Clerical) Grade-II				
१३४	लघुलेखक (उच्चश्रेणी) / Stenographer (Higher Grade)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००
१३५	कक्ष अधिकारी / Section Officer	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
१३६	लघुलेखक (निम्नश्रेणी) / Stenographer (Lower Grade)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
१३७	अधीक्षक / Superintendent	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
१३८	विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) / Extension Officer (Statistic)	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
१३९	वरिष्ठ सहाय्यक / Senior Assistant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
१४०	लघु टंकलेखक / Steno-Typist	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
१४१	कनिष्ठ सहाय्यक / Junior Assistant	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
१४२	संगणक ऑपरेटर / Computer Operator	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००
जिल्हा सेवा गट-ड / District Services (Group D)				
१४३	माळी / Mali	२७५०-४४००	५२००-२०२००	१८००
१४४	उद्वाहन चालक / Liftman	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१४५	स्वयंपाकी / Cook	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१४६	स्क्वॉड मुकादम / Squad Mukadam	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००

१	२	३	४	५
१४७	कक्ष सेवक / Ward Servant	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१४८	चौकीदार / Chowkidar	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१४९	हमाल / Hamal	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१५०	पशुवैद्यकीय प्रणोपचारक / Veterinary Dresser	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१५१	नाईक / Naik	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१५२	हवालदार / Havaladar	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१५३	आगवाला / Fireman	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१५४	परिचर / Attendant	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१५५	सफाईगार / Sweeper	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१५६	स्वच्छक / Cleaner	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१५७	मदतनीस / Helper	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१५८	स्क्वॉड मजदूर / Squad Mazdoor	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१५९	बंगला किपर / Bangla Keeper	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
जिल्हा सेवा (लेखा)श्रेणी-१ / District Service (Accounts) Grade.I				
१६०	सहाय्यक लेखा अधिकारी / Assistant Accounts Officer	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
१६१	उप-लेखापाल / Deputy Accountant	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००

१	२	३	४	५
१६२	वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) / Senior Assistant (Accounts)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
जिल्हा सेवा (सांख्यिकी) / District Services (Statistical)				
१६३	सांख्यिकी पर्यवेक्षक / Statistical Supervisor	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००
१६४	विस्तार अधिकारी / Extension Officer (Statistics)	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००
१६५	वरिष्ठ सहाय्यक (सांख्यिकी) / Senior Assistant (Statistics)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
१६६	कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक / Junior Technical Assistant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००
१६७	वाहन वाहक / Driver	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१६८	स्टीअरमन / Steerman	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१६९	तांडेल / Tandel	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००
१७०	गँगमन / Gangman	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१७१	मैलकुली / Mailkuli	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
१७२	मजूर / Labour	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००
